

@shahjahanpupol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 08.02.2021

थाना खुटार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

मादक पदार्थ की तस्करी करने वाला गिरोह का किया खुलासा,

करीब 3.5 लाख रुपये की 06 किलो गांजा सहित 05 तस्कर किया गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री पर प्रभावी रोकथाम व तस्करी में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान में श्री संजीव कुमार बाजपेयी अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व श्री नवनीत कुमार क्षेत्राधिकारी पुवायां के निर्देशन में थाना खुटार पुलिस को बड़ी सफलता मिली ।

दिनांक 07/08.02.2021 की देर रात्रि करीब 01.40 बजे थाना खुटार पुलिस टीम द्वारा सूचना मुखबिरी के आधार पर केवल भट्टे के सामने विपरित दिशा में सुनसान जगह पर निर्माणाधीन सरकारी मकान की वाहरी कोठरी के पास से गांजे की अलग अलग पन्नियों में पैकिंग करते हुए अभियुक्तगण 1. यूनुस 2. मोहित मिश्रा 3. जितिन तिवारी 4. दीपू अवस्थी 5. राकेश वर्मा को कुल 6 किग्रा गांजा व प्लास्टिक की खाली थैली वजन लगभग 800 gm व एक अदद इलेक्ट्रानिक कांटा व दो अदद प्लास्टिक टार्च के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों के खिलाफ थाना खुटार पर मु0अ0स0 41/2021 धारा 8/20 NDPS Act पंजीकृत कर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गिरोह में सरगना जितिन तिवारी उपरोक्त का परिवार अर्न्तजनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह से सम्बन्धित है ।

विवरण पूछताछ-

दौराने पूछताछ से ज्ञात हुआ कि यह लोग गांजा व मादक पदार्थों की तस्करी का कार्य करते हैं। जो कि सस्ते दाम पर खुला गांजा व मादक पदार्थ नेपाल व उतरांचल के रास्ते लाकर उसको पैक करके मंहगे दामों पर प्रदेश के अलग अलग जनपदों पीलीभीत, लखीमपुर, बरेली, शाहजहाँपुर में बेच देते हैं। यह लोग खुले गांजे को प्लास्टिक की पन्नियों में पैक कर उनको बेचने के लिये तैयारी कर रहे थे तभी थाना खुटार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । पूछताछ के दौरान प्रकाश में आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. यूनुस पुत्र शहजादे निवासी ग्राम बुझिया तिकुनिया कश्मीर होटल वाली गली थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
2. मोहित मिश्रा पुत्र स्व0 मुन्ना लाल मिश्रा नि0 मो0 नरायनपुर कस्वा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
3. जितिन तिवारी पुत्र स्व0 श्री शिवशंकर तिवारी निवासी मो0 देवस्थान कस्वा व थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
4. दीपू अवस्थी पुत्र सुरेन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम सिल्हुआ थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
5. राकेश वर्मा पुत्र रामरतन लाल निवासी ग्राम महेशपुर थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी का विवरण:-

1. 06 किग्रा नाजायज गांजा (कीमत करीब 3.5 लाख रुपये ।)
2. प्लास्टिक की खाली थैली वजन लगभग 800 gm व एक अदद इलेक्ट्रानिक कांटा व दो अदद प्लास्टिक टार्च

अपराधिक इतिहास:-

1 मु0अ0स0 41/2021 धारा 8/20 NDPS Act थाना खुटार जिला शाहजहाँपुर।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1. क्षेत्राधिकारी पुवायां श्री नवनीत कुमार नायक
2. थानाध्यक्ष श्री जयशंकर सिंह थाना खुटार शाहजहाँपुर।
- 3- उ0नि0 श्री रतिराम सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री रामानन्द मिश्रा थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
5. हे0का0 यशपाल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
6. का0 मोनी कुमार थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।
7. का0 जरनैल सिंह थाना खुटार जनपद शाहजहाँपुर।